



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

2 सितम्बर 2011

संख्या 35

1. भारतीय रिज़र्व बैंक — देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	27 अगस्त	19 अगस्त	26 अगस्त #	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
जारी नोट	8,44,996	9,77,186	9,70,600	-6,586	1,25,604
संचलन में नोट	8,44,980	9,77,181	9,70,585	-6,596	1,25,604
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	5	15	10	-1
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	101	108	101	-7	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—
राज्य सरकार	41	590	42	-547	1
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2,96,830	3,60,496	3,62,414	1,918	65,583
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3,952	3,718	3,609	-109	-343
अन्य बैंक	14,138	16,575	16,192	-383	2,053
अन्य	12,802	10,733	12,253	1,520	-548
अन्य देयताएं	3,44,176	4,32,968	4,49,205	16,237	1,05,030
कुल देयताएं / आस्तियां	15,17,036	18,02,374	18,14,416	12,042	2,97,380
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	12,03,826	13,02,170	13,19,078	16,908	1,15,252
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	89,564	1,11,940	1,11,940	—	22,376
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	2,07,318	3,45,599	3,46,401	802	1,39,083
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	26,204	21,192	-5,012	21,192
राज्य सरकारें	361	560	433	-127	72
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	895	2,088	1,701	-387	806
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	25	767	580	-187	555
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	1,320	1,320	—	-1,430
अन्य आस्तियां	12,297	11,727	11,771	44	-527

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	26 अगस्त 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल भंडार	14,65,008	319,175	17,283	955	1,03,994	14,357	1,32,654	21,841	1,40,382	36,333
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	13,17,927	286,195	16,897	944*	93,044	11,865	1,17,850	18,381	1,15,273	29,547
(ख) स्वर्ण \$	1,11,940	25,349	—	—	9,368	2,377	11,254	2,879	22,376	6,071
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	21,369	4,640	238	7	968	71	-1,384	-438	-1,972	-341
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,772	2,991	148	4	614	44	4,934	1,019	4,705	1,056

+ आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किए गये ₹1,151 करोड़ / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश को छोड़कर।

* अमरीकी डॉलर के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित निधि की स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल की गई है।

@ इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर (4,883 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) और विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीआर (340 मिलियन अमरीकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिनका आवंटन क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	12 अगस्त 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		पखवाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2010-2011	2011-2012	2010	2011
	1	2	3	4	5	6
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	69,138	-442	-3,236	-4,604	11,071	7,442
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	30,089	3,939	-7,722	365	-1,142	5,454
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,068	186	1,044	2,944	-7,182	3,046
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	54,91,450	10,318	1,46,221	2,83,481	5,80,978	8,52,403
		(0.2)	(3.3)	(5.4)	(14.3)	(18.4)
मांग	5,46,281	-20,595	-53,973	-95,424	59,319	-45,356
मीयादी	49,45,169	30,912	2,00,194	3,78,905	5,21,659	8,97,759
उधार ⁽³⁾	1,56,966	4,691	18,802	25,625	16,372	33,886
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,63,500	11,826	-10,497	21,695	-9,402	44,577
रिजर्व बैंक से उधार	1,116	-1,280	1,090	-3,915	1,132	-16
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,91,415	-3,746	15,623	41,906	98,568	68,825
पास में नकदी	33,795	-1,545	1,762	3,450	2,976	6,456
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,57,620	-2,201	13,861	38,457	95,592	62,368
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	52,366	2,196	-16,807	-3,771	-2,476	6,753
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	20,194	5,117	-5,421	3,588	-2,153	7,947
बैंकों को अग्रिम	7,823	233	-4,170	-4,746	3,805	2,100
अन्य आस्तियां	71,472	5,387	4,517	2,399	13,041	22,492
निवेश⁽⁵⁾	16,85,773	4,516	69,152	1,84,153	1,10,744	2,31,868
		(0.3)	(5.0)	(12.3)	(8.2)	(15.9)
सरकारी प्रतिभूतियों में	16,81,532	4,782	69,890	1,84,384	1,13,963	2,33,247
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,241	-266	-738	-231	-3,219	-1,379
बैंक ऋण	40,48,457	43,091	1,22,677	1,06,374	5,66,961	6,80,992
		(1.1)	(3.8)	(2.7)	(20.2)	(20.2)
खाद्य ऋण	72,448	1,996	-1,562	8,165	-1,943	25,520
खाद्येतर ऋण	39,76,009	41,095	1,24,239	98,209	5,68,904	6,55,471
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	39,03,516	43,249	1,21,451	1,09,510	5,38,224	6,59,907
देशी बिल - खरीदे गए	10,723	366	-2,162	-2,721	-988	870
भुनाए गए ⁽⁶⁾	83,268	-14	3,339	3,402	20,546	17,711
विदेशी बिल - खरीदे गए	17,717	53	826	-866	1,785	758
भुनाए गए	33,233	-562	-777	-2,950	7,393	1,745
नकद-जमा अनुपात	7.13					
निवेश-जमा अनुपात	30.70					
ऋण-जमा अनुपात	73.72					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफिजम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	20 अगस्त	15 जुलाई	22 जुलाई	29 जुलाई	5 अगस्त	12 अगस्त	19 अगस्त
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	7.50/8.00	9.50/10.25	9.50/10.25	9.50/10.75	9.50/10.75	9.50/10.75	10.00/10.75
जमा दर ⁽³⁾	6.75-7.75	8.50-9.25	8.50-9.25	8.50-9.25	8.50-9.50	8.50-9.50	8.50-9.50
मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) ⁽⁴⁾	5.68	7.57	7.63	7.81	7.97	7.96	7.98

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बीचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन का 90-95 प्रतिशत भाग शामिल है। मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा-भारांकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2011-2012			2010-2011		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (2)-(1)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (5)-(4)
	2011			2010		
	25 मार्च	12 अगस्त		26 मार्च	13 अगस्त	
	1	2	3	4	5	6
1. बैंक ऋण	39,42,083	40,48,457	1,06,374 (2.7)	32,44,788	33,67,466	1,22,677 (3.8)
क. खाद्य ऋण	64,283	72,448	8,165	48,489	46,928	-1,562
ख. खाद्येतर ऋण	38,77,800	39,76,009	98,209 (2.5)	31,96,299	33,20,538	1,24,239 (3.9)
2. निवेश	1,47,601	1,47,005	-596	1,18,071	1,41,432	23,361
क. वाणिज्यिक पत्र	12,309	14,763	2,454	25,188	35,079	9,890
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	41,316	38,806	-2,510	30,106	34,650	4,544
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	8,965	8,225	-739	4,625	7,164	2,539
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	30,581	-1,771	25,481	27,486	2,005
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	93,975	93,435	-540	62,777	71,703	8,927
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	27,946	24,912	-3,034	22,710	22,908	198
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	68,523	2,494	40,067	48,796	8,729
3. कुल (1ख+2)	40,25,401	41,23,014	97,613 (2.4)	33,14,370	34,61,970	1,47,600 (4.5)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	47,603	76,597	28,994	52,887	40,830	-12,057
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	31,296	31,174	-122	32,597	26,464	-6,133
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	45,615	50,823	5,209	30,902	34,579	3,677

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें – हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	22 अगस्त	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	22 अगस्त	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	45.9483	45.6890	45.7695	46.1285	46.0528	—	2.02	2.23	1.74	1.64
यूरो	66.0129	65.7742	65.9745	66.5290	66.4788	—	-9.87	-10.28	-10.79	-10.57
फेडरल की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	45.9500	45.6850	45.7700	46.1100	46.0700	—	2.00	2.23	1.79	1.58
डॉलर { बिक्री	45.9600	45.6950	45.7800	46.1200	46.0800	—	2.00	2.23	1.79	1.58
पौंड { खरीद	75.6900	75.2900	75.5300	75.5150	75.2100	—	-3.62	-4.39	-4.25	-3.16
स्टर्लिंग { बिक्री	75.7200	75.3275	75.5650	75.5400	75.2475	—	-3.61	-4.39	-4.25	-3.17
यूरो { खरीद	65.9575	65.7325	65.9725	66.4850	66.4825	—	-9.87	-10.25	-10.75	-10.56
{ बिक्री	65.9950	65.7550	65.9925	66.5200	66.5125	—	-9.85	-10.22	-10.77	-10.57
100 येन { खरीद	59.8700	59.4925	59.7525	59.8125	59.7225	—	-8.31	-7.83	-6.94	-7.53
{ बिक्री	59.8975	59.5375	59.8050	59.8500	59.7600	—	-8.31	-7.85	-6.92	-7.53
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	3.53	3.81	2.62	2.73	2.87					
3 - माह	3.74	3.98	3.45	3.34	3.65					
6 - माह	3.79	3.96	3.41	3.19	3.39					

— पिछले वर्ष के तदुत्तरूपी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		परवर्द्ध		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	12 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम ₃	64,99,548	68,23,852	25,744	0.4	2,16,534	3.9	3,24,304	5.0	7,71,818	15.3	10,04,586	17.3
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	9,14,197	9,50,840	15,447	1.7	59,250	7.7	36,643	4.0	1,40,716	20.5	1,24,098	15.0
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,660	6,22,541	-20,552	-3.2	-54,281	-7.6	-95,118	-13.3	73,198	12.4	-41,147	-6.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	48,63,979	52,48,463	31,140	0.6	2,11,180	5.1	3,84,484	7.9	5,58,478	14.8	9,23,852	21.4
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,713	2,008	-291	-12.7	385	10.0	-1,705	-45.9	-574	-12.0	-2,216	-52.5
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	19,82,771	21,36,489	2,709	0.1	74,567	4.5	1,53,718	7.8	3,35,198	23.8	3,92,736	22.5
(क) रिजर्व बैंक	3,96,555	3,70,087	-2,047	-0.1	-2,463	-0.1	-26,468	-0.1	2,02,713	1.0	1,60,964	0.8
(ख) अन्य बैंक	15,86,216	17,66,402	4,756	0.3	77,030	5.3	1,80,186	11.4	1,32,485	9.4	2,31,772	15.1
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	42,35,406	43,39,320	42,654	1.0	1,38,260	4.0	1,03,914	2.5	5,88,402	19.3	7,09,651	19.6
(क) रिजर्व बैंक	2,164	1,711	-89	-0.0	-3	-0.0	-453	-0.0	-9,033	-0.0	385	0.0
(ख) अन्य बैंक	42,33,242	43,37,609	42,742	1.0	1,38,263	4.0	1,04,367	2.5	5,97,436	19.7	7,09,266	19.5
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,93,327	14,64,828	23,345	1.6	46,315	3.6	71,501	5.1	-25,944	-1.9	1,37,045	10.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	12,724	12,959	—	—	492	4.4	235	1.8	1,345	12.9	1,198	10.2
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रा देयताएं	11,24,680	11,29,745	42,964	4.0	43,099	5.1	5,064	0.5	1,27,182	16.6	2,36,044	26.4
जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	3,68,274	4,16,191	8,287	2.0	31,419	10.4	47,917	13.0	-64,520	-16.2	83,157	25.0

* 20 मार्च 2009 से आइएफएसडी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	26 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	13,76,881	13,69,370	-3,651	-0.3	20,108	1.7	-7,512	-0.5	2,39,689	25.6	1,93,576	16.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,659	9,83,544	-6,596	-0.7	57,318	7.2	33,885	3.6	1,50,305	21.3	1,26,678	14.8
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	3,82,215	1,426	0.4	-37,378	-10.6	-41,295	-9.8	90,817	40.5	67,294	21.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	3,713	3,611	1,520	72.7	167	4.4	-102	-2.7	-1,433	-26.3	-396	-9.9
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,96,555	3,68,132	-3,613	-0.1	-3,974	-0.1	-28,423	-0.1	1,97,460	1.0	1,60,521	0.8
	3,94,035	3,67,741	-4,034	-0.1	-4,290	-0.1	-26,294	-0.1	1,97,189	0.9	1,60,450	0.8
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	7,324	3,581	-573	-0.0	-277	-0.0	-3,742	-0.0	-7,956	-0.0	1,361	0.0
	5,159	1,743	-573	-0.0	-274	-0.0	-3,417	-0.0	895	0.0	848	0.0
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	14,31,000	16,908	1.2	61,423	5.0	1,02,447	7.7	-27,583	-2.1	1,37,628	10.6
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,724	12,959	—	—	617	5.5	235	1.8	1,382	13.2	1,073	9.0
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	3,68,274	4,46,303	16,372	3.8	37,681	12.5	78,029	21.2	-76,386	-18.4	1,07,008	31.5

* 20 मार्च 2009 से आइएफएसडी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

टिप्पणी : 31 मार्च 2011 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के बाद की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

तारीख	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+) / कमी(-) (5-10)	एमएसएफ	बकाया राशि
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)			
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 अगस्त 2011	1	18	26.065	18	26,065	8.00	3	735	3	735	7.00	25,330	—	-25,330
23 अगस्त 2011	1	13	23.965	13	23,965	8.00	2	755	2	755	7.00	23,210	—	-23,210
24 अगस्त 2011	1	28	46,580	28	46,580	8.00	2	700	2	700	7.00	45,880	—	-45,880
25 अगस्त 2011	1	21	43,110	21	43,110	8.00	5	1,440	5	1,440	7.00	41,670	—	-41,670
26 अगस्त 2011	3	32	53,090	32	53,090	8.00	16	3,875	16	3,875	7.00	49,215	—	-49,215

एमएसएफ : सीमांत स्थायी सुविधा ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (7+8+9)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	4,000	78	14,105	—	35	4,000	—	—	4,000	98.26	7.1443	69,845
6 जुलाई	8 जुलाई	7,000	94	27,621	250	29	7,000	250	—	7,250	98.00	8.1857	1,21,860
24 अगस्त	26 अगस्त	7,000	72	17,091	1,500	53	7,000	1,500	—	8,500	97.96	8.3528	1,18,869
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
2011-2012 13 अप्रैल	15 अप्रैल	2,000	74	7,744	1,500	25	2,000	1,500	—	3,500	96.43	7.4462	24,501
6 जुलाई	8 जुलाई	3,000	75	7,178	—	44	3,000	—	—	3,000	96.04	8.2692	34,251
17 अगस्त	18 अगस्त	3,000	67	7,825	—	48	3,000	—	—	3,000	96.00	8.3998	38,200
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011 12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
2011-2012 6 अप्रैल	8 अप्रैल	2,000	80	8,350	—	31	2,000	—	—	2,000	93.02	7.5476	42,456
13 जुलाई	15 जुलाई	3,000	107	13,141	—	20	3,000	—	—	3,000	92.41	8.2360	53,308
24 अगस्त	26 अगस्त	3,000	130	14,000	—	27	3,000	—	—	3,000	92.37	8.3065	59,245

टिप्पणियाँ: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

	दिनांक													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13 अगस्त	14 अगस्त	15 अगस्त	16 अगस्त	17 अगस्त	18 अगस्त	19 अगस्त	20 अगस्त	21 अगस्त	22 अगस्त	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त
26 अगस्त 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधी अपेक्षाएँ	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272	3,49,272
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,58,202	3,58,202	3,58,202	3,50,622	3,40,552	3,58,968	3,60,765	3,64,880	3,64,880	3,30,211	3,26,967	3,48,898	3,48,522	3,62,558

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
	1	2	3
8 अक्तूबर 2010	3,44,158	38,285	6.36–8.26
14 जनवरी 2011	3,71,881	44,019	7.18–9.82
8 अप्रैल 2011	4,44,525	61,292	8.00–11.70
1 जुलाई 2011	4,21,072	74,973	8.19–10.21
15 जुलाई 2011	4,05,973	28,431	8.20–10.10
29 जुलाई 2011	4,12,189	11,667	8.10–10.01

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि		पखवाड़े के दौरान सूचित		ब्याज दर (प्रतिशत) @	
	1		2		3	
15 जुलाई 2010	1,07,755		11,680		6.02-8.75	
15 अक्टूबर 2010	1,32,093		35,490		6.50-10.00	
15 जनवरी 2011	98,913		22,908		6.60-11.95	
15 अप्रैल 2011	1,05,518		30,840		7.15-12.30	
30 जून 2011	1,04,689		30,290		8.35-13.50	
15 जुलाई 2011	1,28,347		29,818		8.10-13.25	

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		14 अगस्त	18 जून *	13 अगस्त #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	176.6	194.9	198.5	0.5	0.3	5.4	12.4
(i) फल और सब्जियां	3.84	160.1	177.8	187.3	1.1	-3.6	12.2	17.0
ईंधन और विद्युत	14.91	147.8	160.2	167.2	—	1.0	5.9	13.1
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* : अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

प्रोट : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	26 अगस्त	22 अगस्त	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त
	1	2	3	4	5	6
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	18226.35	16341.70	16498.47	16284.98	16146.33	15848.83
एसएंडपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	5477.90	4898.80	4948.90	4888.90	4839.60	4747.80

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	15 जुलाई 2011	22 जुलाई 2011	29 जुलाई 2011	5 अगस्त 2011	12 अगस्त 2011	19 अगस्त 2011	26 अगस्त 2011
	1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	11,179	12,366	9,334	6,794	9,168	8,182	9,042
ख) दिए गए ऋण	12,358	13,466	10,320	8,054	10,501	9,054	9,937
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,189	1,100	986	1,274	1,333	872	895
ख) दिए गए ऋण	10	—	—	14	—	—	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	12,368	13,466	10,320	8,068	10,501	9,054	9,937
ख) दिए गए ऋण	12,368	13,466	10,320	8,068	10,501	9,054	9,937

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत है (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	22 जुलाई 2011	29 जुलाई 2011	5 अगस्त 2011	12 अगस्त 2011	19 अगस्त 2011	26 अगस्त 2011
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	1,04,300	1,11,002	1,04,048	2,38,015	79,406	1,60,921
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	4,084	511	854	1,678	1,220	1,611
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	14,669	13,481	11,299	11,524	5,058	7,818
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,347	1,014	1,541	575	1,464	1,548
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,135	2,264	2,811	2,051	1,340	686
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	82	—	393	44	339	16

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई			एफ सी वाई/आइ एन आर			एफ सी वाई/एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीद												
8 अगस्त 2011	3,448	3,874	1,090	279	1,709	1,640	8,820	8,705	707	8,129	2,165	115
9 अगस्त 2011	2,757	3,459	1,196	144	1,831	1,652	9,814	10,213	874	5,204	1,540	108
10 अगस्त 2011	3,630	4,213	2,248	271	908	777	8,842	10,759	735	4,629	1,859	173
11 अगस्त 2011	3,155	2,216	1,063	184	982	916	7,384	8,988	1,110	5,488	1,075	190
12 अगस्त 2011	3,360	1,634	695	149	1,023	968	7,337	6,838	1,029	3,810	2,111	422
बिक्री												
8 अगस्त 2011	3,649	3,691	890	275	1,846	1,586	8,779	10,007	787	7,763	2,069	122
9 अगस्त 2011	2,808	3,511	1,331	147	1,940	1,660	9,600	11,044	1,288	4,802	1,433	97
10 अगस्त 2011	3,000	4,304	1,428	262	1,007	892	8,223	11,681	1,110	4,602	1,798	173
11 अगस्त 2011	2,496	3,364	873	176	1,079	887	7,210	9,635	1,305	5,275	1,148	166
12 अगस्त 2011	2,887	2,368	637	110	1,128	842	7,094	8,268	1,150	3,688	1,958	183

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	22 जुलाई 2011	29 जुलाई 2011	5 अगस्त 2011	12 अगस्त 2011	19 अगस्त 2011 @	26 अगस्त 2011
	1	2	3	4	5	6
राशि	1,989.95	1,502.87	1,428.97	889.91	94.53	1,020.89

@ : 19 अगस्त 2011 को बाजार बंद रहने के कारण आंकड़े 18 अगस्त 2011 को समाप्त सप्ताह के हैं।

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	26 अगस्त 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल					सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)	कुल (1+2+3+4)		
	1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	40,448	10,487	13,207	64,142	-1,049	20,723
राज्य सरकारें	72,067	24,869	3,250	203	1,00,388	5,522	-11,100
अन्य	3,755	53,552	24,463	45,835	1,27,606	2,120	44,207

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार — 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुलाई गई सकल राशि			जुलाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (26 अगस्त 2011 तक)	2010-2011 (27 अगस्त 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (26 अगस्त 2011 तक)	2010-2011 (27 अगस्त 2010 तक)	2010-2011
	1	2	3	4	5	6
1. कुल	2,17,000	2,38,000	4,37,000	1,57,666	1,54,966	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* : बिक्री	3,513	4,320	11,575			
खरीद	3,517	4,301	78,799			

* भारिबैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	19 अगस्त 2011 को समाप्त सप्ताह			26 अगस्त 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
	1	2	3	4	5	6
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	—	—	—	—	—	—
2012-13	42	8.1085	8.2500	86	8.1517	8.2226
2013-14	31	8.2154	8.2933	193	8.1400	8.4296
2014-15	1	—	—	100	8.1300	8.1500
2015-16	49	8.1708	8.3032	135	8.1667	8.2220
2016-17	436	8.2165	8.3322	1,831	8.2197	8.3124
2017-18	—	—	—	90	8.2586	8.4888
2018-19	2,440	8.2531	8.5630	5,237	8.2382	8.3254
2019-20	253	8.3693	8.8653	334	8.3448	8.8840
2020-21	5	8.9598	8.9598	20	9.0079	9.0328
2021 से आगे	36,444	8.2323	8.5905	72,435	8.2055	8.5988
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	610	8.4983	8.6000	806	8.4546	8.6599
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	416	6.0011	8.1500	940	8.0391	8.2473
ख) 15 - 91 दिन	2,115	8.0692	8.3528	3,218	8.0000	8.3528
ग) 92 - 182 दिन	730	8.3200	8.3780	778	8.2944	8.3502
घ) 183 - 364 दिन	670	8.1000	8.3000	90	8.2701	8.3200
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	169			11		
खरीद	170			5 +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)	राशि	दरें (% वार्षिक)	दरें (% वार्षिक)
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	30,350	5.50 (1)	9.75 (17)	58,850	5.00 (1)	9.75 (20)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	152	7.97 (1)	8.05 (4)	364	7.11 (1)	8.05 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	16,318	7.95 (1)	8.05 (5)	25,645	7.85 (1)	8.20 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	5,866	7.85 (1)	8.05 (4)	8,591	7.85 (1)	8.10 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,874	7.95 (1)	8.05 (4)	7,334	7.25 (1)	8.30 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रिपो * ^	1,36,585	—	8.00	1,92,810	—	8.00
: रिवर्स रिपो !	2,935	—	7.00	7,505	—	7.00

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फ्रस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹800 और ₹2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 द्वारा प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।